



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

No. 198]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

केन्द्रीय भांडागारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

सं. केन्द्रीय भांडागारण निगम/एफडी-ईपीएफ-विनियम/संशोधन/16-17.—केन्द्रीय भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भांडागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय भांडागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन विनियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भांडागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 के विनियम-14 और 15 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमों को रखा जाएगा, अर्थात्—

‘14 ब्याज की संगणना (1) खाते के अंतिम परिनिर्धारण पर भविष्य निधि संचय के अंतरण या संदाय के मामले में खाते में जमा शेष धनराशि पर ब्याज पूर्ववर्ती माह की उस अंतिम तारीख को जिस पर अंतरण या संदाय प्राधिकृत है या ऐसी राशि के देय होने के माह के पश्चात् 36 महीनों की समाप्ति तक, इनमें जो भी अवधि कम हो, देय होगा:

परंतु खंडित करेंसी अवधि के लिए स्वीकृत किया गया ब्याज दर उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए संदाय प्राधिकृत किया गया है, घोषित दर होगा।

- (2) अन्य भविष्य निधि से आने वाले अभिदाता के मामले में, उसके अंतरित संचयन पर ब्याज उसके लेखे में उस माह के प्रारम्भ से जमा किया जाएगा, जिस माह संचयन राशि प्राप्त हुई है।

**15. अभिदाता के खाते में जमा राशि का संदाय:** अभिदाता के खाते में जमा राशि उनके द्वारा निगम की सेवा छोड़ने पर संदेय होगी।

परंतु जब किसी अभिदाता ने निगम की सेवा से त्याग पत्र दिया हो और सरकारी अथवा निगमित निकाय अथवा किसी स्वायत्त निकाय में सेवा ग्रहण की है जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के अधीन मान्य प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान का दायित्व हो, तब ऐसे अभिदाता को संदेय राशि उसके नए भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने के लिए प्रेषित की जाएगी।

**15 क. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर निकासी –** अभिदाता को अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर उसकी जमा राशि में से 90% तक की राशि की निकासी की अनुमति होगी।

**15 ख. कुर्की से संरक्षण—**(1) किसी अभिदाता की निधि में जमा राशि को किसी भी प्रकार समनुदेशित या प्रभारित नहीं की जाएगी और कुर्की के लिए दायी नहीं होगी।

- (2) किसी अभिदाता की निधि में जमा बकाया राशि अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप विधारित, संप्रदरण, कटौती, समायोजित या वसूली के न तो तो योग्य होगा और नहीं दायी होगा तथा निधि के अभिदाता को अपनी निधि में जमा बकाया राशि में से किसी वसूली के लिए कोई बचनबद्ध या सहमति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तथा ऐसा कोई बचनबद्ध शून्य होगा।

पी. के. साव, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/4/असा./45/17]

**टिप्पणी:** मूल विनियम, का.आ. संख्यांक-1014 तारीख 30.03.1962 द्वारा अधिसूचित किए गए थे जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 (ii) में तारीख 07.04.1962 को प्रकाशित हुए थे, और निम्न प्रकार संशोधित किए गए:

1. तारीख 17.06.1963 की का.आ.संख्यांक 1694 तारीख 22.06.1963 को राजपत्र में प्रकाशित
2. तारीख 17.12.1963 की का.आ.संख्यांक 3563 तारीख 21.12.1963 को राजपत्र में प्रकाशित
3. तारीख 08.12.1964 की का.आ.संख्यांक. 4258 तारीख 12.12.1964 को राजपत्र में प्रकाशित
4. तारीख 18.09.1967 की का.आ.संख्यांक 3382 तारीख 23.09.1967 को राजपत्र में प्रकाशित
5. तारीख 11.10.1968 की का.आ.संख्यांक 3666 तारीख 19.10.1968 को राजपत्र में प्रकाशित
6. तारीख 20.03.1971 की का.आ.संख्यांक 1801 तारीख 01.05.1971 को राजपत्र में प्रकाशित
7. तारीख 06.02.1976 की का.आ.संख्यांक 787 तारीख 21.02.1976 को राजपत्र में प्रकाशित
8. तारीख 05.03.1979 की का.आ.संख्यांक 983 तारीख 17.03.1979 को राजपत्र में प्रकाशित
9. तारीख 07.01.1982 की का.आ.संख्यांक 197 तारीख 23.01.1982 को राजपत्र में प्रकाशित
10. तारीख 02.05.1985 की का.आ.संख्यांक 2 तारीख 18.05.1985 (भाग-3-खंड-4) को राजपत्र में प्रकाशित
11. तारीख 29.08.1991 की का.आ.संख्यांक 35 तारीख 30.08.1991 को राजपत्र में प्रकाशित
12. तारीख 24.12.1991 की का.आ.संख्यांक 49 तारीख 24.12.1991 को राजपत्र में प्रकाशित
13. तारीख 18.04.1999 की का.आ.संख्यांक 7 तारीख 25.01.1999 को राजपत्र में प्रकाशित
14. तारीख 20.07.2006 की का.आ.संख्यांक 113 तारीख 24.07.2006 को राजपत्र में प्रकाशित

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2017

**No.CWC/FD-EPF-Regulation/Amendment/16-17:** In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Amendment Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, for regulations 14 & 15, the following regulations shall be substituted, namely:—

**“14. Calculation of interest—**(1) In case of transfer or payment of provident fund accumulations on final settlement of an account, interest on the balance standing at the credit of the account shall be payable upto the end of the month preceding the date on which the transfer or payment is authorized or up to the end of the thirty six months after the month in which such amount becomes payable, whichever of these period is less:

Provided that rate of interest to be allowed for the broken currency period shall be the rate declared for the financial year in which payment is authorised.

- (2) In case of a subscriber coming from other provident fund, interest on his transferred accumulation is to be credited to his account from the beginning of the month in which the accumulations are received.

**15. Payment of amount standing to credit of subscriber-** The sum standing to the credit of a subscriber shall become payable on his leaving the service of the Corporation:

Provided that when a subscriber has resigned from the service of the Corporation and taken up service under a Government or a body corporate or any autonomous body with liability to subscribe to a Provident Fund recognised under Income Tax Act 1961, the amount payable to such subscriber shall be remitted for credit to his new provident fund account.

**15A. Withdrawal within one year before the retirement on superannuation –** A subscriber may be allowed to withdraw upto 90 percent of the amount standing to his credit within one year before his retirement on superannuation.

**15B. Protection from attachment –** (1) The amount standing to the credit of any subscriber in the fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment.

- (2) The amount standing to the credit of any subscriber in the fund is neither capable of nor liable to withholding, forfeiture, deduction, adjustment, recovery as a consequence of any order under disciplinary proceedings and subscriber of the fund shall not be compelled to give any undertaking, assigning or giving consent for any recovery from the amount standing to his credit in the fund and any such undertaking shall be void”.

P. K. SAW, Dy. General Manager(Personnel)

[ADVT.-III/4/Exty./45/17]

**Note :** The original regulations were notified vide S.O. No.1014 dated 30.03.1962 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(ii) dated 07.04.1962 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. No. 1694 dated 17.06.1963 published in the Gazette dated 22.06.1963
2. S.O. No. 3563 dated 17.12.1963 published in the Gazette dated 21.12.1963
3. S.O. No. 4258 dated 08.12.1964 published in the Gazette dated 12.12.1964
4. S.O. No. 3382 dated 18.9.1967 published in the Gazette dated 23.09.1967

5. S.O. No. 3666 dated 11.10.1968 published in the Gazette dated 19.10.1968
6. S.O. No. 1801 dated 20.03.1971 published in the Gazette dated 01.05.1971
7. S.O. No. 787 dated 06.02.1976 published in the Gazette dated 21.02.1976
8. S.O. No. 983 dated 05.03.1979 published in the Gazette dated 17.03.1979
9. S.O. No. 197 dated 07.01.1982 published in the Gazette dated 23.01.1982
10. S.O. No. 2 dated 02.05.1985 published in the Gazette dated 18.05.1985 (part III-Section 4)
11. S.O. No. 35 dated 29.08.1991 published in the Gazette dated 30.08.1991
12. S.O. No. 49 dated 24.12.1991 published in the Gazette dated 24.12.1991
13. S.O. No. 7 dated 18.04.1999 published in the Gazette dated 25.01.1999
14. S.O. No. 113 dated 20.07.2006 published in the Gazette dated 24.07.2006